

9. इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए।

आलस्य का परिणाम

किसी गाँव में फुलमतिया नाम की एक बुढ़िया रहती थी। प्यार से लोग उसे दादी कहते थे। उसका पोता मोहन जो स्वभाव से आलसी था, उसी के यहाँ रहता था। दादी फुलमतिया ने एक तोता पाल रखा था। मोहन तोते से बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि तोते को दाना-पानी दिए बिना वह स्वयं नाश्ता भी नहीं करता था पर मोहन की एक बुरी आदत थी - जब भी उसे कोई काम करने को कहा जाता तो "बस एक मिनट बाद" का बहाना बनाकर बात टाल देता था। इस एक मिनट के आलस्य का बुरा परिणाम होता है।

एक बार तोते के पिंजड़े के पास एक काली बिल्ली आई।

दादी ने मोहन को आवाज़ दी। "बिल्ली आ रही है। देखो वह तोते को खा न जाए।" मोहन ने दादी की बात पर ध्यान नहीं दिया। झट से बोला - "अरी दादी तू क्यों चिल्लाती रहती है - तू ठहर न, बस एक मिनट में मैं आया" - इतना बोलकर मोहन अपने में उलझ गया और तुरन्त तोते के पास नहीं गया। इतने में बिल्ली ने तोते पर झपट्टा मारा और मोहन के प्रिय तोते का काम तमाम कर दिया।

जब मोहन पिंजड़े के पास पहुँचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तोते को न पाकर मोहन चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगा। वैसे दादी ऊपर के बरामदे में नहीं जाती थी पर मोहन के रोने की आवाज़ सुनकर धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़ती हुई मोहन के पास जा पहुँची। बिल्ली को मुँह मटकाते हुए देखकर दादी सारी बातें समझ गई। दादी नाराज़ होकर मोहन से बोली - "जब भी तुम्हें कुछ करने को कहती हूँ तब यही कहते हो 'एक मिनट बाद,' देखा न इस का मिनट बाद का क्या परिणाम हुआ?"

"खैर, जो हो गया सो हो गया।"

"अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।"

"अब रोने से क्या लाभ अब आगे के लिए सचेत हो जाओ।" दादी ने मोहन को समझाया कि आलस्य के कारण बना हुआ काम बिगड़ जाता है।

मोहन ने उस दिन से आलस्य छोड़ दिया और 'एक मिनट बाद' कहने की आदत भी छोड़ दी।

प्रश्न :-

- (क) फुलमतिया कौन थी ?
- (ख) लोग प्यार से उसे क्या कहते थे ?
- (ग) किस ने एक तोता पाल रखा था ?
- (घ) कौन आलसी था ?
- (ङ) तोते से कौन प्यार करता था ?
- (च) किस बात से पता चलता है कि मोहन आलसी था ?
- (छ) 'बिल्ली ने तोते का काम तमाम कर दिया' का क्या अर्थ है ?
- (ज) कौन ऊपर के बरामदे में नहीं जाता था ?
- (झ) दादी क्यों धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़ती हुई गई ?
- (ञ) बिल्ली को मुँह मटकाते देखकर दादी कौन सी बात समझ गई ?
- (ट) यदि मोहन आलस्य न करता तो क्या होता ?
- (ठ) मोहन ने क्यों आलस्य करने की बुरी आदत छोड़ दी ?

[24 mks]

2. उचित शब्द चुनकर लिखिए :-

- (क) अच्छे कर्मों से लोग (नाम, काम, दाम) कमाते हैं ।
- (ख) हम अनाथों को (शरण, चरण, हरण) देते हैं ।
- (ग) हम पेड़ की (छाया, माया, दया) में आराम करते हैं ।
- (घ) दादाजी (सात, साथ, साठ) बजे खेत जाते हैं ।
- (ङ) हम अपने (देश, भेष, वेष) को स्वर्ग बनाएँगे ।

[20 mks]

3. रेखांकित क्रियाओं का शुद्ध रूप लिखिए :-

- (क) कृष्ण के मित्रों ने मक्खन । (खाना)
- (ख) मक्खन खाने के बाद सखाओं ने अपना मुँह । (पोंछना)
- (ग) अध्यापक ने बच्चों को कविता । (सुनाना)
- (घ) माता यशोदा ने छत पर छींका । (लटकाना)
- (ङ) माताजी ने बरतन में दही । (रखना)

[20 mks]

4. रेखांकित शब्दों को बहुवचन में लिखिए :-

- (क) उसकी दोनों बेटी भारत में पढ़ती हैं ।
- (ख) तालाब में रंग-बिरंगी मछली तैरती हैं ।
- (ग) मुरगी खेतों का नुकसान करती हैं ।
- (घ) आज सभी बच्चा समय पर पहुँचे ।
- (ङ) काज़ेला में दो कठघरा देखने को मिलते हैं ।

[10 mks]

5. इन शब्दों से वाक्य बनाइये :-

माँ, सहेली, कुत्ता, होली, भगवान

[10 mks]

6. इन विषयों में से किसी एक पर 100 - 175 शब्दों का एक निबन्ध लिखिए :-

- (क) दूध से लाभ
- (ख) समुद्र तट पर एक दिन
- (ग) महाशिवरात्रि

[16 mks]